

No. of Printed Pages : 4

ECO-12

**BACHELOR'S DEGREE PROGRAMME
(BDP)**

Term-End Examination

December, 2024

Elective Course : Commerce

ECO-12 : ELEMENTS OF AUDITING

Time : 2 Hours

Maximum Marks : 50

Weightage : 70%

Note : Attempt any *five* questions. All questions carry equal marks.

1. What do you understand by 'Auditing' ? Explain its objectives. 3+7
2. Describe the steps to be taken by an auditor before commencing a new audit. 10
3. Distinguish between 'Internal Audit' and 'Statutory Audit'. 10

4. What are the special points an auditor should bear in mind while examining a voucher ? 10
5. How would you verify the following ? 5+5
 - (a) Plant and Machinery
 - (b) Goodwill
6. Explain the duties of a company auditor. 10
7. Discuss the advantages of cost audit. 10
8. Write short notes on any *two* of the following : 5+5
 - (a) Continuous Audit
 - (b) Audit Note Book
 - (c) Qualified Audit Report
 - (d) Periodical Audit

ECO-12

स्नातक उपाधि कार्यक्रम (बी. डी. पी.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2024

ऐच्छिक पाठ्यक्रम : वाणिज्य

ई.सी.ओ.-12 : अंकेक्षण के मूल तत्व

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

भारिता : 70%

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. 'अंकेक्षण' से आप क्या समझते हैं ? इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। 3+7
2. कोई नया अंकेक्षण आरम्भ करने से पूर्व अंकेक्षक द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। 10

3. 'आंतरिक अंकेक्षण' तथा 'वैधानिक अंकेक्षण' के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 10
4. वाउचर की जाँच करते समय अंकेक्षक को किन विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए ? 10
5. निम्नलिखित का सत्यापन आप किस प्रकार करेंगे ?

5+5

(क) प्लांट एवं मशीनरी

(ख) ख्याति

6. कम्पनी अंकेक्षक के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। 10
7. लागत अंकेक्षण के लाभों की चर्चा कीजिए। 10
8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

5+5

(क) सतत् अंकेक्षण

(ख) अंकेक्षण नोट बुक

(ग) मर्यादित अंकेक्षण रिपोर्ट

(घ) आवधिक अंकेक्षण

x x x x x x x